

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए ब्रैम्पटन की बार्स, रेस्टोरेंट्स और भोजन संबंधी संस्थानों की व्यक्तिगत सेवा बंद करने की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (16 मार्च, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ओनटैरियो प्रांत (Province of Ontario) द्वारा आज की गई घोषणा के अनुपालन में, पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) का समर्थन करती है। इस घोषणा में, COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी. 19) के फैलाव को नियंत्रण करने में मदद के लिए बार्स, रेस्टोरेंट्स और भोजन संबंधी संस्थानों को व्यक्तिगत सेवा बंद करने का आदेश दिया गया है।

इसके अलावा, पील पब्लिक हेल्थ, 17 मार्च, 2020, सुबह 12:01 बजे से लेकर, नाइटक्लब, मूवी थिएटर और कॉन्सर्ट स्थलों को बंद करने की भी पुरजोर सिफारिश करती है।

पील पब्लिक हेल्थ हर किसी को सामाजिक दूरी बनाकर रखने की प्रयास करने का अनुरोध करती है। सामाजिक दूरी, शारीरिक संपर्क से बचना और दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखना (लगभग 2 मीटर तक) है।

पील पब्लिक हेल्थ इसकी भी पुरजोर सिफारिश करती है कि जिन निवासियों ने कैनडा (Canada) के बाहर, अमेरिका (United States) सहित अन्य देशों में यात्रा की है, वे 14 दिनों तक खुद को दूसरों से अलग रखें।

हालांकि कई रेस्टोरेंट्स, बार्स और भोजन संबंधी संस्थानों ने पहले ही पील के निवासियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने व्यवसाय के तरीकों को बदलने जैसे कदम उठाए हैं। पील में कोई भी कारोबारी, जो सूबे की अथवा पील पब्लिक हेल्थ की सिफारिशों को नहीं मानता, वह हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रोमोशन एक्ट (Health Protection and Promotion Act) के तहत आदेशों के अधीन होगा।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन निवासियों को सलाह देती है कि वे भोजन घर लेकर आने जैसे विकल्पों का लाभ लेकर, स्थानीय फूड सर्विस संस्थानों को सहयोग करें।

सिटी की सेवाओं के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs), और फेसिलिटी और प्रोग्रामिंग बंद होने के बारे में जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट: www.brampton.ca/covid19 पर जाएं।

पील पब्लिक हेल्थ द्वारा दी जाने वाली ताज़ा जानकारी के लिए: www.peelregion.ca/coronavirus पर जाएं।

हवाला

“COVID-19 का मुकाबला करने और इसे फैलने से रोकने में समुदाय की मदद करने के लिए, तात्कालिक, सामूहिक कार्रवाई आवश्यक है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, रेस्टोरेंट्स, बार्स, और कॉफी शॉप्स सहित, सभी स्थानीय भोजन संबंधी संस्थानों को अस्थायी तौर पर बंद करके, पील पब्लिक हेल्थ की समुदाय की सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली, आज की सिफारिशों का पूरी तरह से समर्थन करती है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, COVID-19 की प्रतिक्रिया में की जा रही बेजोड़ कार्रवाई के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि समुदाय के तौर पर, हम एकजुट रहें और मैं आने वाले सप्ताहों में भी जनता के लगातार सहयोग का अनुरोध करता हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca